



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 चैत्र 1939 (श०)

(सं० पटना 287) पटना, मंगलवार, 11 अप्रील 2017

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 मार्च 2017

सं० वि०स०वि०-०९/२०१७-३४८१/वि०स०—“बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१७”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 मार्च, 2017 को पुरस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

अध्यक्ष बिहार विधान-सभा के आदेश से,

राम श्रेष्ठ राय,

सचिव।

**बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017**  
 (वि०स०वि०-06/2017)

**बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का  
 संशोधन करने के लिए विधेयक।**

**प्रस्तावना:-** चूँकि, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नियुक्ति के लिए एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन आवश्यक है;

और, चूँकि, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न दिशानिर्देशों/विनियमों में अंकित प्रावधानों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है;

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों/रेगुलेशनों के अनुरूप अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

**1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।-**(1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) यह अधिनियम उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

**2. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-2 का संशोधन।-** बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-2 के खंड-(त) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“(त) ‘आयोग’ से अभिप्रेत है कि ‘बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग’।”

**3. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57 में संशोधन ।-**(1) अधिनियम की धारा-57 की उपधारा (1) का खण्ड (i) विलोपित किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा-57 की उपधारा (1) का खण्ड (iii) का परंतुक विलोपित किया जाएगा।

**4. बिहार अधिनियम 23, 1976 में एक नई धारा-58 ख का जोड़ा जाना।-** अधिनियम 1976 की धारा-58 के बाद निम्नलिखित नई धारा-58 ख जोड़ी जाएगी :-

“58 ख- बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन ।- राज्य सरकार विश्वविद्यालय शिक्षक की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने के लिए एक अलग बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करेगी।”

**5. व्यावृत्ति।-** अधिनियम की धारा-2 एवं धारा-57 की उपधारा-(1) के खंड (iii) में संशोधन के होते हुए भी, पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या समझी जायेगी और अधिनियम की धारा-57 के प्रतिस्थापन या विलोपन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या की जायेगी।

### उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नियुक्ति के लिए एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन आवश्यक है। साथ ही साथ बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों/ विनियमों में अंकित प्रावधानों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है। इस निमित बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 ( बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा-2 एवं धारा-57 में कतिपय संशोधन तथा एक नई धारा- 58ख जोड़ा जाना इस विधेयक का उद्देश्य है जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(अशोक चौधरी)

भार-साधक सदस्य

पटना,  
दिनांक 30.03.2017

राम श्रेष्ठ राय,  
सचिव,  
बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 287-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>